

निस्कार्ट फादर एग्नल, वैशाली

हिंदी अभ्यास पत्रिका -२०१७-१८

माह - नवम्बर, कक्षा - 9

प्रश्न 1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

राष्ट्रीय एकता एक प्रबल शक्ति है | यह वीरता और बलिदान के कार्यों को बढ़ावा देती है और जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है | यह देशवासियों को उन्नति के पथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है | संसार के लोगों ने राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित होकर अपूर्व उन्नति की है | राष्ट्रीय एकता जनता को व्यक्ति और समाज दोनों रूपों से प्रोत्साहन और प्रेरणा देती है | जब महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन आरंभ किया तो समूचा राष्ट्र एक भावना से गांधी जी के साथ जो लिया | एकता और संगठन की भावना जागृत करने के लिए उन्होंने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित अनेक रचनात्मक कार्यक्रम आरंभ किए | आजादी के बाद समस्त भारत भावनात्मक एकता के सूत्र में बंधा है | चीनी अतिक्रमण इसका जीता-जगता प्रमाण प्रस्तुत करता है | उस कठिन समय में भारतवासियों के भावनात्मक एकता एकदम व्यावहारिक एकता में पतिवर्तित हो गई और आक्रांत चीन की चुनौती का पूरे राष्ट्र ने ललकार के साथ उत्तर दिया | इस समय हमारे देश को उसी प्रकार की भावनात्मक एकता की आवश्यकता है |

- (क) राष्ट्रीय एकता देशवासियों को क्या प्रेरणा देती है ?
- (ख) गांधी जी ने किस भावना को जागृत करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम आरंभ किए ?
- (ग) किसके बल पर भारतवासियों ने चीनी आक्रमण का सामना किया ?
- (घ) वर्मान समय में देश को किस प्रकार की एकता की आवश्यकता है ?
- (ङ) (i) गद्यांश में से एक भाववाचक संज्ञा छाँटकर लिखिए ?
- (ii) गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए |

काव्यांश

प्रश्न 2 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

चौड़ी सड़क गली पतली थी , दिन का समय घनी बदली थी |
रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था |
उसे बता यह दिया गया, उसकी हत्या होगी |
धीरे-धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले |
फिर रह गया, सड़क पर सब थे
सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी |
खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रख कर |
सधे सन्न रख करके आए , लोग सिमट कर आँख गड़ाए |
लोग देखने उसको , जिसकी तय था हत्या होगी |

निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा ।
हाथ तौलकर चाकू मारा , छूटा लोहू का फव्वारा ।
खा नहीं था उसने आखिर , उसकी हत्या होगी ।

- (क) रामदास की उदासी का क्या कारण था ?
(ख) रामदास अपने साथ किसी को लेते-लेते क्यों रुक गया ?
(ग) सड़क पर हत्या होने का क्या मतलब है ?
(घ) जनता के सामने एक आम आदमी की हत्या किस बात का सूचक है ?
(ङ) काव्यांश का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए ।

प्रश्न - 3 दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए ।

i. जीवन में खेल-कूद का महत्त्व

संकेत बिंदु - स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क , खेल से समस्त गुणों का विकास , स्वस्थ मनोरंजन का अनुपम साधन ।

ii. बढ़ता तनाव - एक समस्या

संकेत बिंदु - तनाव की प्रकृति , कारण , दूर करने की उपाय ।

iii. जब आवे संतोष धन, सब धन धुरि समान

संकेत बिंदु - अभिप्राय , सुख-शांति का मूलमंत्र , असंतोष से हानियाँ ।

प्रश्न 4 - दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन कीजिए ।



प्रश्न उत्तर

अग्नि पथ

- कवि ने अग्नि पथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है ।
- माँग मत , कर शपथ , लथपथ इन शब्दों का बार-बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है ।
- कवि ने शपथ ग्रहण करने का सुझाव किस संदर्भ में दिया है ?
- कवि ने वृक्षों की तुलना किससे की है ?
- थकने और थमने की मनाही से कवि का क्या तात्पर्य है ?
- मनुष्य से बच्चन को किस बात की आशा है ? अग्निपथ कविता के आधार पर लिखिए ?
- कवि अग्निपथ किसे कहा है ?
- अग्निपथ कविता का प्रतिपाद्य तथा कविता का सन्देश लिखिए ।

नए इलाको में और खुशबू से रचते हाथ

- नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है ?
- कविता में कौन-कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है ?
- खुशबू रचनेवाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ -कहाँ रहते हैं ।
- कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है ?
- कवि ने यह क्यों कहा है की खुशबू रचते हैं हाथ ?
- इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
- इस कविता में कवि ने शहरो की बिडंबना की ओर संकेत किया है ?
- वसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा से क्या अभिप्राय है ?
- इस कविता में कवि ने शहरो को किस विडंबना की ओर ध्यान दिया है ।
- उभरी नसोवाले हाथ से कवि ने किस आयु वर्ग के लोगो की ओर संकेत किया है ।
- टोले से क्या अभिप्राय है ?
- खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण सीसे वातावरण में और किन लोगो द्वारा किया जाता है ?
- कवि किन निशानों की सहायता से अपनी मंजिल पर पहुँचा करता था ?

- एक ही दिन में दुनिया पुरानी पड़ जाने का कारण क्या है ?

हामिद खां

- हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया ?
- मालाबार में हिन्दू-मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए ।
- तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा ?
- हामिद खां चरित्र चित्रण कीजिए ?
- हामिद खां ने लेखक की किस बात का विश्वास नहीं किया और क्यों ?
- लेखक के द्वारा दिए गए उत्तर से हमें क्या सीख मिलती है ?
- अगर आप ऐसे समाज में फँस जाओ कि आप उनकी भाषा न समझ सकें और वो आपकी। तब आप उन्हें अपनी बात कैसे समझाएँगे।

धर्म की आड़

- धर्म के नाम पर ज़िद क्यों की जाती है ?
- देश में धर्म की धूम कैसे है ?
- इस देश में गरीबों का शोषण बुरा क्यों नहीं है ?
- बुद्धि पर मार से क्या अभिप्राय है?
- लोग धर्म के नाम पर क्यों उबल रहे पड़ते हैं?
- लेखक ने साधारण आदमी को मूर्ख क्यों कहा है ?
- सच्ची उपासना का अर्थ स्पष्ट करे
- नास्तिक आदमी को लेखक ने अच्छा क्यों माना है ?
- ईश्वरत्व से मनुष्यत्व की ओर से क्या अर्थ है ?
- देश में धर्म की धूम है से लेखक का क्या आशय है ?